



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 20—मई 26, 2006 (वैशाख 30, 1928)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20—MAY 26, 2006 (VAISAKHA 30, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

अन्तरिक्ष विभाग

दिनांक 12 अप्रैल 2006

बेंगलूर-560094, दिनांक 5 मई 2006

सं. ए. 22016/3/2006--राष्ट्रपति, श्री एस.वी. रंगनाथ, भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्य (कर्ना: 75) को अन्तरिक्ष विभाग में अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार के रूप में 4.5.2006 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

मो. इक्रामुल्ला, अपर सचिव

सं. ए-19011/14/2005-प्रशा. I--हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं. 3-28-डी पी-नियुक्ति-IV दिनांक 15 फरवरी 2006 के अनुसरण में श्री प्रेम सिंह राणा, आई ए एस (हि.प्र. : 70), सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 01.03.2006 के पूर्वाह्न से सेवा से स्वीच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

ए. के. सक्सेना, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 10 अप्रैल 2006

गृह मंत्रालय

सं. ए-19016/1/2003-प्रशा. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 22/3/2006-ईओ(एसएम I) दिनांक 31 मार्च, 2006 द्वारा संप्रेषित मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के आदेशों के अनुसरण में डॉ. रमेश चन्द्र पाण्डा, भा.प्र.से. (तमिलनाडु : 72) ने 1 अप्रैल, 2006 के पूर्वाह्न से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में विशेष सचिव का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ए. के. सक्सेना, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2006

सं. I-14012/9/2005-आईपीएस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम-6 के तहत सिविल सेवा परीक्षा, 2004 के आधार पर निम्नलिखित उम्मीदवारों को उनके नाम के समक्ष दी गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन आईपीएस का नाम	जन्म की तारीख	आईपीएस में नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
सर्वश्री			
1.	सुश्री सुमन गोयल	25.08.1981	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
2.	परमादित्य	05.10.1975	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
3.	श्यामसुन्दर एस.	22.02.1978	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
4.	सी. एम. श्री विक्रम वर्मा	17.07.1974	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
5.	पृथी पाल सिंह	12.03.1976	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
6.	मनु महाराज	20.10.1974	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
7.	जितेन्द्र राणा	12.09.1979	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
8.	अमरेश कुमार मिश्रा	07.02.1980	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
9.	ध्रुव गुप्ता	02.05.1980	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
10.	राहुल भगत	15.10.1974	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
11.	हिमांशु शुक्ला	16.09.1978	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
12.	राघवेन्द्र वत्स	16.09.1978	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
13.	प्रेम वीर सिंह	01.06.1974	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
14.	मनिन्दर प्रताप सिंह पवार	12.05.1978	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
15.	सुश्री सुमेधा	26.11.1978	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
16.	एम. एस. नेत्रपाल	23.06.1980	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
17.	कुलदीप द्विवेदी	24.09.1979	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
18.	अभिषेक	26.01.1979	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
19.	पंकज कम्बोज	12.02.1980	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
20.	असीम विक्रान्त मिन्ज़	31.01.1975	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
21.	कौशलेन्द्र कुमार	15.08.1977	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
22.	नीरज कुमार गुप्ता	05.06.1981	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
23.	कोरी संजय कुमार गुरुदीन	15.04.1976	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
24.	अकबर ए.	18.05.1976	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
25.	सुशांत कुमार सक्सेना	03.11.1979	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
26.	सांगानकल वीरेश प्रभु	14.06.1977	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
27.	मनोज कुमार शर्मा	03.07.1975	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
28.	मोह. सुवेज हक	01.07.1978	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
29.	सुश्री निकम शारदा वसंत	04.06.1980	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
30.	आर. गोपाल कृष्ण राव	04.03.1975	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
31.	संजीव अरोड़ा	09.02.1981	22.08.2005 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
सर्वश्री			
32.	जय नारायण पंकज	03.05.1976	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
33.	हर्ष कुमार बंसल	25.09.1978	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
34.	सुश्री परम ज्योति	10.07.1977	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
35.	राजीव रंजन	01.03.1979	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
36.	के. एस. नरेनधीरन नैय्यर	27.10.1979	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
37.	सुभाष चन्द्र दुबे	02.12.1977	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
38.	राम कृष्ण भारद्वाज	25.09.1978	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
39.	दीपक कुमार	16.04.1979	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
40.	अंकज शर्मा	08.11.1976	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
41.	सुश्री मंजिल सैनी	09.09.1975	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
42.	अखिलेश कुमार	20.07.1975	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
43.	जे. रवीन्द्र गौड	01.12.1973	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
44.	सुश्री रिधीम अग्रवाल	29.7.1982	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
45.	सुश्री नीरू गर्ग	15.05.1982	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
46.	कृष्ण कुमार वी. के.	17.02.1975	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
47.	गौरव शर्मा	12.08.1980	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
48.	मधुर वर्मा	12.05.1980	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
49.	शीश राम झाझरिया	03.09.1971	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
50.	अन्नप्पा ई.	08.01.1974	22.08.2005 (पूर्वाह्न)
51.	मुख्तार मोहसिन	07.03.1977	23.08.2005 (पूर्वाह्न)
52.	विजय सिंह	30.07.1972	12.12.2005 (पूर्वाह्न)
53.	निशान्त कुमार तिवारी	02.03.1979	12.12.2005 (पूर्वाह्न)
54.	क्षत्रनिल सिंह	28.07.1977	12.12.2005 (पूर्वाह्न)
55.	एम. सुनील कुमार नायक	20.08.1980	12.12.2005 (पूर्वाह्न)
56.	पी. कानन	31.05.1977	12.12.2005 (पूर्वाह्न)
57.	मनीष चौधरी	17.02.1981	12.12.2005 (पूर्वाह्न)
58.	कलीराज महेश कुमार एस.	27.12.1975	12.12.2005 (पूर्वाह्न)
59.	कदम संदीप वसंत	28.05.1978	12.12.2005 (पूर्वाह्न)
60.	अभिषेक गोयल	06.05.1980	12.12.2005 (पूर्वाह्न)
61.	रमन गुप्ता	06.11.1980	12.12.2005 (पूर्वाह्न)
62.	आशीष	02.02.1977	12.12.2005 (पूर्वाह्न)
63.	शेख आरिफ हुसैन	30.03.1980	12.12.2005 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
64. काबीब. के.	18.05.1979	12.12.2005 (पूर्वाह)	
65. सुश्री प्रिंसी रानी	20.01.1980	12.12.2005 (पूर्वाह)	
66. राजेश कुमार	19.11.1976	12.12.2005 (पूर्वाह)	
67. विजेन्द्र बिदरी	29.05.1982	12.12.2005 (पूर्वाह)	
68. विष्णु कान्त	20.08.1977	12.12.2005 (पूर्वाह)	
69. अजय पाल लाम्बा	07.08.1978	12.12.2005 (पूर्वाह)	
70. रूपेश कुमार मीणा	29.06.1974	12.12.2005 (पूर्वाह)	
71. उपेन्द्र कुमार अग्रवाल	20.03.1980	12.12.2005 (पूर्वाह)	
72. प्रेम कुमार गौतम	20.10.1977	12.12.2005 (पूर्वाह)	
73. नीलेश आनन्द भार्गे	28.08.1972	12.12.2005 (पूर्वाह)	
74. मुरली धर	20.07.1977	12.12.2005 (पूर्वाह)	
75. अखिलेश कुमार चतुर्वेदी	15.09.1980	12.12.2005 (पूर्वाह)	
76. रणदीप डी.	03.07.1979	15.12.2005 (पूर्वाह)	
77. सुकेश कुमार जैन	08.06.1983	26.12.2005 (पूर्वाह)	
78. प्रवीण कुमार अभिनापु	02.08.1980	06.01.2006 (पूर्वाह)	
79. अविनाश मोहन्ती	31.07.1980	06.01.2006 (पूर्वाह)	

2. उपरोक्त उम्मीदवारों की भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति अनन्तिम है और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से आवश्यक अनापत्ति मिलने के अध्धीन है।

जे. बी. कौशिश, डेस्क अधिकारी

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-3, दिनांक 1 मई 2006

सं. 13011/5/2005-रा.भा. (नी.स.)--राष्ट्रपति, श्रीमती अणिमा तनेजा, सहायक निदेशक (तदर्थ) को राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में सहायक निदेशक के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में दिनांक 03.04.2006 के पूर्वाह से पदोन्नति के आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बृजमोहन सिंह नेगी, निदेशक (नीति)

सं. 13011/5/2005-रा.भा. (नी.स.)--राष्ट्रपति, श्रीमती प्रवेश शर्मा, सहायक निदेशक (तदर्थ) को राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में सहायक निदेशक के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में दिनांक 28.03.2006 के पूर्वाह से पदोन्नति के आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बृजमोहन सिंह नेगी, निदेशक (नीति)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 2006

सं. 14015/05/2005-अ.भा.से.(1)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप नियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने, भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग में वर्ष 2005 के दौरान हुई 13(तेरह) रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 को आयोजित बैठक में चयन समिति द्वारा तैयार की गई छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों वाली वर्ष 2005 की चयन सूची दिनांक 01 मई, 2006 को अनुमोदित कर दी है:--

चयन सूची-2005

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म-तिथि
(सर्वश्री)		
1.*	एच.पी. किंडो (अनु.ज.जाति)	11.08.1953
2.	जूसूफ मिंज (अनु.ज.जाति)	08.02.1953
3.#	ओंकार सिंह (अनु.ज.जाति)	03.11.1959
4.	एम.एम. परस्ते (अनु.ज.जाति)	16.04.1954
5.	सुरेन्द्र कुमार जायसवाल	23.05.1959
6.	ओमेगा यूनिस टोम्पो (अनु.ज.जाति)	05.03.1959
7.	ज़ेवियर तिग्गा (अनु.ज.जाति)	13.01.1953
8.	अशोक कुमार अग्रवाल	20.01.1958
9.	नवल सिंह मण्डावी (अनु.ज.जाति)	15.07.1954
10.	देवी दयाल सिंह (अनु.ज.जाति)	07.06.1961
11.	एस.एल. रात्रे (अनु.जाति)	03.02.1956
12.	एस.पी. शौरी (अनु.ज.जाति)	08.08.1954
13.	एस.आर. ब्राह्मणे (अनु.जाति)	01.01.1956

* क्रम संख्या 01 पर दिए गए नाम को सूची में अन्तिम रूप से शामिल किया गया है जो अनुशासनिक कार्यवाही अनापत्ति और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के अध्धीन है।

क्रम संख्या-3 पर दिए गए नाम को सूची में अन्तिम रूप से शामिल किया गया है जो आपराधिक कार्यवाही अनापत्ति और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के अध्धीन है।

जगन लाल, अवर सचिव

सं. 14015/05/2005-अ.भा.से.(1) ख.--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के

नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ के राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2005 की रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के तहत उन्हें छत्तीसगढ़ संवर्ग आबंटित करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	जूसुफ मिंज (अ.ज.जा.)
2.	एम.एस. परस्ते (अ.ज.जा.)
3.	सुरेन्द्र कुमार जायसवाल
4.	ओमेगा यूनिस् टोप्पो (अ.ज.जा.)
5.	जेवियर तिग्गा (अ.ज.जा.)
6.	अशोक कुमार अग्रवाल
7.	नवल सिंह मण्डावी (अ.ज.जा.)
8.	देवी दयाल सिंह (अ.ज.जा.)
9.	एस.एल. रात्रे (अ.जा.)
10.	एस.पी. शौरी (अ.ज.जा.)
11.	एस.आर. ब्राह्मणे (अ.जा.)

जगन लाल, अवर सचिव

दिनांक 5 मई 2006

सं. 14015/12/2005-अ.भा.से.(1) क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 7 के उप विनियम (1) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2005 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल संवर्ग में एक (01) रिक्ति को भरने के लिए दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 को आयोजित बैठक में चयन समिति द्वारा तैयार की गई केरल राज्य के गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारी, श्री पी.पी. गोपी (अनुसूचित जाति) (जन्म तिथि 22.07.1951) के नाम वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल संवर्ग की वर्ष 2005 की चयन सूची दिनांक 03.04.2006 को अनुमोदित कर दी है।

जगन लाल, अवर सचिव

सं. 14015/12/2005-अ.भा.से.(1) ख.--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, केरल गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारी, श्री पी.पी. गोपी (अनुसूचित जाति) को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के तहत उन्हें केरल संवर्ग में आबंटित करते हैं।

जगन लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2006

सं. 14012/13/2005-अ.भा.से.(III)---राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्री पीयूष सिंह	2000	04.09.2002
2.	श्री एन.के. सुधांशु	2000	16.09.2002
3.	श्री पी. अनबालागेन	2001	02.09.2003
4.	सुश्री प्राजक्ता रामचन्द्र लावेनगरे	2001	02.09.2003
5.	श्री निपुण विनायक	2001	02.09.2003
6.	श्री एस.के. परदेशी	2001	02.09.2003
7.	सुश्री निधि पाण्डेय	2001	02.09.2003
8.	सुश्री विजयलक्ष्मी बिदारी	2001	02.09.2003

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 2006

सं. ए-12026/7/2004-प्रशासन-I---राष्ट्रपति, श्री हेम राज, हस्तशिल्प उन्नयन अधिकारी, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में दिनांक 4 अप्रैल, 2006 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं। श्री हेम राज का वेतन, इस विभाग के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 5.1.1994 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-2/29/91-स्था.(वेतन-II) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

वी.के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 2006

सं. 13017/47/2005-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मणिपुर-त्रिपुरा सरकार और ए.जी.एम.यू.टी. के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में, गृह मंत्रालय की सहमति से, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री अंकुर गर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर.आर.: 2003) को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग में स्थानांतरित करती है।

अरूण कुमार सिंह, डैस्क अधिकारी

दिनांक 4 मई 2006

सं. 22012/32/2000-अ.भा.से.(I)---ओ.ए. संख्या 213/2000 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ के दिनांक 11.05.2000 के

आदेश के साथ पठित सिविल रिट याचिका संख्या 6448/2000 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 31.05.2002 के आदेश तथा सिविल अपील अधिकांश, 2003 की सिविल अपील संख्या 1895 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 22.02.2006 के आदेश के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री एन. मंजूनाथ प्रसाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर.आर.: 94) को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक संवर्ग में स्थानांतरित करती है।

अरूण कुमार सिंह, डैस्क अधिकारी

विदेश मंत्रालय

कार्यालय: प्रोटोकॉल उप-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2006

सं. डी-III/सी.एफ-10/2004--भारत के राष्ट्रपति ने श्री देविन्द्र पाल सिंह की नई दिल्ली में अलबानिया गणराज्य के अवैतनिक मानद प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री देविन्द्र पाल सिंह के कौंसिली क्षेत्राधिकार में भारत का सम्पूर्ण राज्य होगा।

पी. पी. सरकार, प्रोटोकॉल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2006

सं. 21: (फा. सं. ए. 50/71/2004-प्रशासन-1)--व्यय विभाग (संवर्ग प्रशासन अनुभाग) के दिनांक 10.03.2006 के का.ज्ञा. सं. ए-12026/4/2005-सी ए एस और प्रशा. 1ख, राजस्व विभाग के दिनांक 20.03.2006 के कार्यालय आदेश सं. ए/27/2006 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को दिनांक 20.03.2006 (पूर्वाह्न) से 19.09.2006 (अपराह्न) तक अर्थात् छह माह की अवधि के लिए अथवा चयन सूची के व्यक्तियों के उपलब्ध होने तक इनमें से जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं:--

सर्व श्री

1. एन. के. शर्मा
2. एस. के. घोष
3. सोहन लाल
4. मुंगी राम
5. रमेश
6. आर. के. मेहन्दीरता

2. उपर्युक्त अनुभाग अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति उनको प्रोन्नति के लिए कोई दावा करने का अधिकार नहीं देगी और उनके द्वारा की गई

अल्पकालिक आधार पर सेवा अगले ग्रेड में नियमित प्रोन्नति हेतु नहीं गिनी जाएगी।

प्रीति पंत, अवर सचिव

दिनांक 5 अप्रैल 2006

सं. 24: (फा. सं. ए.-38011/1/2006-प्रशासन-1)--राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में, सदस्य के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1969) के अधिकारी श्री सुधाकर मिश्रा समझौता आयोग (आयकर/धन कर) में सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अधीन 28 मार्च 2006 (पूर्वाह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

प्रीति पंत, अवर सचिव

दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. 22: (फा. सं. ए.-19012/3/2006-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री ए. के. वाजपेयी, भारतीय रेलवे लेखा सेवा (1987) को दिनांक 3.4.2006 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पंत, अवर सचिव

दिनांक 10 अप्रैल 2006

सं. 26 : (फा.सं. 50/85/2005-प्रशा. 1)--इस विभाग के दिनांक 9.3.2006 के कार्यालय आदेश सं. 65/2006 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय के के.स.से. संवर्ग के निम्नलिखित 2 अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से अथवा अगला आदेश होने तक, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर राजस्व विभाग, वित्तीय आसूचना एकक-भारत (वि.आ.ए.-भा.) में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वि.आ.ए.-भा.) के रूप में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री जी.एस. राव	3.4.2006 (पूर्वाह्न)
2.	श्री नित्यानंद रे	3.4.2006 (पूर्वाह्न)

प्रीति पंत, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2006

सं.1/2006(फा.सं. 26/1/2006-प्रशासन-1 ग)--राष्ट्रपति, श्री के. के. अग्रवाल, मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, मुम्बई को दिनांक

16.02.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण में सदस्य (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुम्बई पीठ के समक्ष पड़ी ओ. ए. सं. 2005 का 432 के परिणाम के अध्वधीन है।

एस.जी.पी. वर्गीज, अवर सचिव

सं. 2/2006 (फा.सं. 26/2/2006-प्रशासन-I ग)--राष्ट्रपति, श्री पी. कार्तिकेयन, आयुक्त, सीमा शुल्क (न्याय निर्णयन), मुम्बई को दिनांक 10.02.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण में सदस्य (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस.जी.पी. वर्गीज, अवर सचिव

कम्पनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2005

सं. पीएफजी (556)/96-प्रशा.11--भारतीय विधि सेवा के एक वरिष्ठ समयमान (विधि शाखा) अधिकारी श्री केशव प्रसाद ने, अपने स्थानांतरण पर, दिनांक 17.06.2005 से कम्पनी विधि बोर्ड कार्यालय, पूर्वी क्षेत्र पीठ, कोलकाता में पीठाधिकारी का पदभार त्याग दिया है।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609-(2) और धारा 448 (1)(क) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने श्री केशव प्रसाद, भारतीय कम्पनी विधि सेवा के एक वरिष्ठ समयमान (विधि शाखा) अधिकारी को, अगले आदेश तक दिनांक 20.06.2005 के अपराह्न से कम्पनी रजिस्ट्रार, पटना के साथ शासकीय समापक, उच्च न्यायालय, पटना के कार्य के लिए नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2006

सं. पीएफजी (678)/2006-प्रशा.11--भारतीय विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (विधि शाखा) के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप, श्री एम. एस. पचौरी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक ने मुख्यालय में सहायक निदेशक (निरीक्षण) का पदभार दिनांक 2 फरवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से ग्रहण कर लिया है।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार श्री एम. एस. पचौरी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (निरीक्षण) को उक्त धारा, 209-क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करती है।

आर. सी. तुली, अवर सचिव

दिनांक 29 फरवरी 2006

सं. पीएफजी (665)/2006-प्रशा.11--संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 7.12.2005 को हुई डीपीसी की बैठक में की गई सिफारिशों के

आधार पर, राष्ट्रपति, श्री पी. सी. नन्द कुमार, वरिष्ठ तकनीकी सहायक को प्रोन्नति पर भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान अधिकारी (लेखा शाखा) के पद पर कंपनी कार्य मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. ए-32011/2/2003-प्रशा. 11 दिनांक 1.02.2006, के द्वारा नियुक्त करते हैं।

2. आईसीएलएस के कनिष्ठ समयमान अधिकारी (लेखा शाखा) में हुए प्रोन्नति के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार ने, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पी. सी. नन्द कुमार की नियुक्ति कंपनी रजिस्ट्रार हैदराबाद के कार्यालय में सहायक कंपनी रजिस्ट्रार के पद पर की है। श्री पी. सी. नन्द कुमार की नियुक्ति ए. आर. ओ. सी. हैदराबाद, का पदभार दिनांक 16.02.2006 (अपराह्न) को संभाला है।

आर. सी. तुली, अवर सचिव

सं. पीएफजी (671)/2006-प्रशा. 11--संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 7.12.2005 को हुई डीपीसी की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति, श्री कमल हरजानी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक को प्रोन्नति पर, भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान अधिकारी (विधि शाखा) के पद पर कंपनी कार्य मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. ए-32011/2/2003-प्रशा. 11 दिनांक 01.02.2006, के द्वारा नियुक्त करते हैं।

2. आईसीएलएस के कनिष्ठ समयमान अधिकारी (विधि शाखा) में हुई प्रोन्नति के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार ने, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कमल हरजानी को कंपनी रजिस्ट्रार, अहमदाबाद के कार्यालय में सहायक कंपनी रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति की है। श्री कमल हरजानी ने ए.आर.ओ.सी. अहमदाबाद, का पदभार दिनांक 8.2.2006 (पूर्वाह्न) से संभाला है।

आर. सी. तुली, अवर सचिव

सं. पीएफजी (674)/2006-प्रशा.11--संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 7.12.2005 को हुई डीपीसी की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति, श्री आर. के. बक्शी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक को प्रोन्नति पर, कंपनी भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान अधिकारी (विधि शाखा) के पद पर कंपनी कार्य मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. ए-32011/2/2003-प्रशा. 11 दिनांक 01.02.2006, के द्वारा नियुक्त करते हैं।

2. आईसीएलएस के कनिष्ठ समयमान अधिकारी (विधि शाखा) में हुई प्रोन्नति के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार ने, श्री आर. के. बक्शी को पीठाधिकारी, कंपनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली का कार्यभार दिनांक 17.02.2006 (अपराह्न) से संभाला है।

आर. सी. तुली, अवर सचिव

दिनांक 13 मार्च 2006

सं. पीएफजी (663)/2006-प्रशा. II--दिनांक 7.12.2005 को यूपीएससी में हुई डीपीसी की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर, कंपनी कार्य मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. क-32011/2/2003-प्रशा.-II दिनांक 1.02.2006 के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती पद्मावती बालाकृष्णन, वरिष्ठ तकनीकी सहायक को प्रोन्नति पर भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान अधिकारी (लेखा शाखा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. आईसीएलएस के जेटीएस (लेखा शाखा) के लिए प्रोन्नति पर अपनी नियुक्ति के फलस्वरूप श्रीमती पद्मावती बालाकृष्णन ने प्रदेशिक निदेशक, मुम्बई के कार्यालय में सहायक निदेशक (निरीक्षण) का पदभार दिनांक 2 फरवरी, 2006 से ग्रहण किया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209-क (1)(ii) के द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इसके द्वारा श्रीमती पद्मावती बालाकृष्णन, सहायक निदेशक (निरीक्षण) को उक्त धारा 209-क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करती है।

आर. सी. तुली, अवर सचिव

दिनांक 24 मार्च 2006

सं. पीएफजी (664)/2006-प्रशा. II--संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 7.12.2005 को हुई डीपीसी की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, श्री सी. रूप चन्द्र को कंपनी कार्य मंत्रालय के दिनांक 1.2.2006 के कार्यालय आदेश सं. ए-32011/2/2003-प्रशा.-II के द्वारा भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (विधि शाखा) में पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

2. आईसीएलएस के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) में पदोन्नति पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप श्री सी. रूप चन्द्र ने 10 फरवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से क्षेत्रीय निदेशक, मुम्बई के कार्यालय में सहायक निदेशक (निरीक्षण) के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

3. केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209-क (1)(ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सी. रूप चन्द्र, सहायक निदेशक (निरीक्षण) को उक्त धारा 209-क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करती है।

आर. सी. तुली, अवर सचिव

सं. पीएफजी (667)/2006-प्रशा. II--संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 7.12.2005 को हुई डीपीसी की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति, एक वरिष्ठ तकनीकी सहायक, श्रीमती एल्सी पपचन को कम्पनी कार्य मंत्रालय के दिनांक 1.2.2006 के कार्यालय आदेश सं. ए-32011/2/2003-प्रशा.-II के द्वारा भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) में पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

2. पदोन्नति पर उनकी नियुक्ति आईसीएलएस के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) में होने पर केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956

(1956 का 1) की धारा 609 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती एल्सी पपचन को कम्पनी रजिस्ट्रार, मुम्बई के कार्यालय में सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती है। उन्होंने 2.2.2006 पूर्वाह्न से सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, मुम्बई के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

आर. सी. तुली, अवर सचिव

सं. पीएफजी (669)/2006-प्रशा. II--संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 7.12.2005 को हुई डीपीसी की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, श्री तपन कुमार चक्रवर्ती को कम्पनी कार्य मंत्रालय के दिनांक 1.2.2006 के कार्यालय आदेश सं. ए-32011/2/2003-प्रशा.-II दिनांक 1.02.2006, के द्वारा भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (विधि शाखा) में पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

2. आईसीएलएस के कनिष्ठ समयमान (विधि शाखा) के रूप में पदोन्नति पर नियुक्त करने के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री तपन कुमार चक्रवर्ती को कंपनी रजिस्ट्रार, कोलकाता के कार्यालय में सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया है। श्री तपन कुमार चक्रवर्ती ने 6.2.2006 (पूर्वाह्न) से सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

आर. सी. तुली, अवर सचिव

सं. पीएफजी (670)/2006-प्रशा. II--संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 7.12.2005 को हुई डीपीसी की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, श्री तरुण कुमार मुखर्जी को कम्पनी कार्य मंत्रालय के दिनांक 1.2.2006 (अपराह्न) के कार्यालय आदेश सं. ए-32011/2/2003-प्रशा.-II दिनांक 1.2.2006, के द्वारा भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (विधि शाखा) में पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

2. आईसीएलएस के कनिष्ठ समयमान (विधि शाखा) के रूप में पदोन्नति पर नियुक्त होने के फलस्वरूप श्री टी. के. मुखर्जी ने 6 फरवरी, 2006 (अपराह्न) से क्षेत्रीय निदेशक, कोलकाता के कार्यालय में सहायक निदेशक (निरीक्षण) के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

3. केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) को धारा 209-क(1)(ii) के द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री टी. के. मुखर्जी, सहायक निदेशक (निरीक्षण) को उक्त धारा 209-क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करती है।

आर. सी. तुली, अवर सचिव

दिनांक 18 अप्रैल 2006

सं. पीएफजी (672)/2006-प्रशा. II--संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 7.12.2005 को हुई डीपीसी की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति, श्री के. सी. मीणा, निरीक्षण अधिकारी को प्रोन्नति पर भारतीय

कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान अधिकारी (लेखा शाखा) के पद पर कंपनी कार्य मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. ए-32011/2/2003-प्रशा.-II दिनांक 1.2.2006, के द्वारा नियुक्त करते हैं।

2. आईसीएलएस के जेटीएस (लेखा शाखा) में हुई प्रोन्नति के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार ने, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री के. सी. मीणा की नियुक्ति कंपनी रजिस्ट्रार, जालंधर के कार्यालय में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर की है। श्री के. सी. मीणा ने ए. आर. ओ. सी., जालंधर का पदभार दिनांक 23.2.2006 (अपराह्न) को संभाला है।

आर. सी. तुली, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2006

सं. ए.5(11)/2005-ईपीजेड--राष्ट्रपति द्वारा सीमाशुल्क आयुक्त कार्यालय, चेन्नई के श्री एस. वैद्यनाथन, मूल्य निर्धारक को विकास आयुक्त, मद्रास, विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 7500-12000 रु. के वेतनमान में दिनांक 4.4.2006 (पूर्वाह्न) से 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक मूल्य निर्धारक, सीमाशुल्क के पद पर नियुक्त किया जाता है।

वी. रामाकृष्णन, अवर सचिव

दिनांक 28 अप्रैल 2006

सं. ए.4/11/2004-ईपीजेड--राष्ट्रपति द्वारा विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम में सहायक श्री बी. राजा बाबू को पदोन्नति के आधार पर उसी कार्यालय में 6500-200-10500 के वेतनमान में सहायक विकास आयुक्त (ग्रेड "ख" राजपत्रित) के पद पर दिनांक 7.3.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

वी. रामाकृष्णन, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2006

सं. ए-12011/6/2005-मा.सं.-II--राष्ट्रपति, श्री टी. ए. बासिल, आईसीओएस (1991) को उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यालय, नई दिल्ली, उर्वरक विभाग में 7 अप्रैल, 2006 (अपराह्न) से 12000-375-16500 रुपए के वेतनमान में उप सचिव स्तर के संयुक्त निदेशक (आदान) के पद पर चार वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

(स्थापना अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 2006

सं. 11(39)/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड-सी आशुलिपिकों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति को इसी सेवा एवं संवर्ग के क एवं ख ग्रेड (विलयित) (निजी सचिव) में तदर्थ आधार पर कार्य करने के लिए दिनांक 31.5.2006 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :--

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्रीमती सुरिन्द्र कौर
2.	श्री एम. एस. पुंजानी

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें बरिष्ठता या नियमित प्रोन्नति का कोई अधिकार नहीं होगा तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से किसी कार्मिक का नामांकन किए जाने पर उनकी यह नियुक्ति समाप्त हो जाएगी।

बाबू राम, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 5 मई 2006

सं. ए-19011/192/2006-प्रशासन--लोक उद्यम विभाग की दिनांक 19.4.2006 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में राष्ट्रपति, श्री अभिजित सेनगुप्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा (केएन:72) को भारत सरकार के सचिव के वेतन में दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. जे. माईकल, अवर सचिव

उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2006

सं. ए-32013/5/2004-श.प्र.--राष्ट्रपति, श्री बी. करुणामूर्ति, निरीक्षण अधिकारी (शर्करा) को शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में सहायक निदेशक (निरीक्षण) (ग्रुप "ए" राजपत्रित) के पद पर 8000-275-13500 रुपए के वेतनमान में दिनांक 13.4.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अबिनाश वर्मा, निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 24 अप्रैल 2006

सं. ए-12023/1/03-प्रशा. 1 (ए)--इस विभाग की दिनांक 24.01.2006 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के

निम्नलिखित स्थायी ग्रेड “सी” आशुलिपिकों की तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में 6500-200-10500/- के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 31.05.2006 तक अथवा नियमित चयन सूची के अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं :--

1. श्री राम प्रकाश
2. श्रीमती कृष्णा माथुर
3. श्री ब्रज नाथ
4. श्री एस. बी. मोहन
5. श्री जितेन्द्र प्रभाकर (डीबीटी)
6. श्री तेज पाल सिंह सहरावत
7. श्रीमती सलोचना राघवानी (डीबीटी)
8. श्रीमती सरोजिनी दत्ता (डीएसआईआर)
9. श्री अनिल कुकरेती (डीबीटी)

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

दिनांक 26 अप्रैल 2006

सं. ए-12023/01/06-प्रशा. 1 (ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के स्थायी ग्रेड “सी” आशुलिपिक, श्री आई. जे. शर्मा को 6500-200-10500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 01.03.2006 से छः मास की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 27 अप्रैल 2006

सं. एस एम/34/46/2005--राष्ट्रपति, भारतीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (नैटमो) में उप निदेशक के पद पर कार्यरत डा. टी. के. बसु को सामान्य केन्द्रीय सेवा (समूह ‘क’) पदोन्नति के अंतर्गत 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में संयुक्त निदेशक के पद पर 28 मार्च 2006 से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एल. के. चावला, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 मई 2006

सं. ए-24011/2/2006--एन आर सी डी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित तीन अधिकारियों की सेवाओं को प्रतिनियुक्ति आधार पर 8 मई 2006 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है :--

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री ललित कपूर,	अपर निदेशक (एसई)
2.	डॉ. के. सी. राठोर,	अपर निदेशक (एसई)
3.	श्री ललित कुमार बोकोलिया,	उप-निदेशक (एससी)

एम. एल. पराशर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2006

सं. ए. 38012/3/2005-आयुष (ई-II)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री ए. आर. हरिया, उपसचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 30 अप्रैल, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए।

अंशुमन शर्मा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. 12022/14/2005-स्था-1--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित आशुलिपिक ग्रेड ए एवं बी (विलयित) श्री हरिन्दर कुमार को तदर्थ आधार पर दिनांक 3.6.2006 के पूर्वाह्न से 30.6.2006 तक या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे उक्त अधिकारी को इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या सी एस एस एस के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में नामित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2006

सं. 2-1/2005-मा.प्रशा--राष्ट्रपति, श्री टी. ई. वैकटचलम, मैकेनिकल मेरीन इंजीनियर, को दिनांक 12.4.2006 अपराह्न से 12,000-375-15,500/-रुपए के वेतनमान पर नियमित रूप से भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई में निदेशक (इंजीनियरी) (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह “क”) राजपत्रित, (अनुसूचिकीय) पद पर नियुक्त करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2006

सं. 19011/2/2006-प्रशासन-1--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की सिफारिश तथा नामांकन पर श्री एच. आर. केशवमूर्ती भारतीय सूचना सेवा (1995) ने दिनांक 13.4.2006 के पूर्वाह्न से पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में उप सचिव का पद ग्रहण कर लिया है तथा इसी तारीख से उन्हें चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, इस विभाग की कर्मचारी संख्या में शामिल कर लिया गया है।

आर. के. चौधरी, निदेशक

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 मई 2006

सं. 2-2/2006-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री नचिकेता कपूर, निवासी मकान नं. 10-बी, गंगाराम अस्पताल मार्ग, नयी दिल्ली को 30.1.2006 (पूर्वाह्न) से 22.3.2006 (अपराह्न) तक 10,000-15,200 रुपये के वेतनमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रीमती रेणुका चौधरी का विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सन्तोष कुमार दरगन, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 मई 2006

सं. 2(5)/2005-का.1--आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 05.12.2005 के आदेश सं. 13016/2/2005-आईईएस के अनुसरण में श्री बी. एन. सतपती (आईईएस : 1980) को आर्थिक सलाहकार (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) के नए सृजित पद का अस्थायी रूप से दर्जा घटाकर एतद्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दिनांक 06 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से नियमित एसएजी स्तर का अधिकारी उपलब्ध होने तक 14,300-400-18,300/-रुपए के अकृत्यिक सेलेक्शन ग्रेड में निदेशक नियुक्त किया गया है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 जुलाई 2001

सं. 39013/1/1999-प्रशा.-1--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री डी. पांडिया राजन, कर्मचारी कोड सं. 4908, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय नई दिल्ली में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-एस. बी के पद से त्यागपत्र दिनांक 14.5.1999 की (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, उप निदेशक

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2006

सं. ए.38011/2/2006-प्रशासन--राष्ट्रपति, नागर विमानन मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 के पद पर कार्यरत अधिकारी तथा नागर

विमानन मंत्रालय के नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में निदेशक प्रशासन के रूप में कार्य कर रहे श्री एस. राजागोपालन, उप सचिव को सी सी एस (पेंशन), नियम, 1972 के नियम 48-ए के अधीन दिनांक 1 मई 2006 (अपराह्न) से भारत सरकार की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान करते हैं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

सं. ए. 12022/3/2000-प्रशासन--दिनांक 30 मार्च 2006 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/1/2006-सी. एस. आई. के अनुसरण में राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव के पद पर कार्यरत श्री संजीव जिंदल का स्थानांतरण करते हुए उनको दिनांक 25 अप्रैल 2006 (अपराह्न) से नागर विमानन मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उनकी नियुक्ति पर, श्री संजीव जिंदल को नागर विमानन मंत्रालय (मुख्य) में तैनात किया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

सं. ए. 12022/09/2002-प्रशा.--राष्ट्रपति, नागर विमानन मंत्रालय के सी.एस.एस.एस. संवर्ग के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों (आशुलिपिक श्रेणी 'ग') को, उनके सामने दर्शाई गई अवधि अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सी.एस.एस.एस. संवर्ग के 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में स्थानापन्न निजी सचिव (आशुलिपिक श्रेणी 'क एवं ख'-विलयन) के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	तैनाती का स्थान	अवधि
1.	श्री आर. के. कोहली	डी.जी.सी.ए.	1.1.2006 से 31.5.2006
2.	श्री बी. डी. शर्मा	मंत्रालय (मुख्य)	1.1.2006 से 31.5.2006
3.	श्रीमती उमा चोपड़ा	डी.जी.सी.ए.	1.1.2006 से 31.5.2006

2. उपरोक्तलिखित कर्मचारियों की निजी सचिव के रूप में नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और वे इस श्रेणी में वरिष्ठता के लिए नागर विमानन मंत्रालय के सी.एस.एस.एस. संवर्ग के निजी सचिव में समाविष्ट किए जाने हेतु कोई दावा नहीं करेंगे।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 3 मई 2006

सं. ए. 32022/1/99-प्रशा.--राष्ट्रपति, नागर विमानन मंत्रालय के स्थाई आशुलिपिक ग्रेड ए एवं बी (आमेलित) श्री किशन लाल को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.4.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/21/2005-सीएस.-II के अनुसरण में दिनांक 27.4.2006 (पूर्वाह्न) से नागर विमानन मंत्रालय में तदर्थ आधार पर रु. 10,000-15200/- के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2006

सं. ई (जी.पी.) 2002/1/59—राष्ट्रपति महोदय, दक्षिण मध्य रेलवे के कार्मिक विभाग के ग्रुप-बी अधिकारी श्री एस. तमिल चोले की 13.12.2005 से भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आई.आर.पी.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में, वर्ष 2003-04 के अनुपूरक पैनेल में, मूल रूप से नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं।

एम. के. अग्रवाल, सचिव/रेलवे बोर्ड

दिनांक 28 अप्रैल 2006

सं. ई (जी.पी.) 2002/1/50—राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित 2 ग्रुप बी अधिकारियों की, उल्लिखित रेलों पर 2.2.2006 से भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (आई.आर.एस. एम.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं:—

अनुपूरक पैनेल 2003-04 के लिए

क्रम सं. अधिकारियों का नाम

पूर्व रेलवे

1. श्री आई. एस. राय

उत्तर रेलवे

1. श्री महेश प्रसाद सुमन (अ.जा.)

एम. के. अग्रवाल, सचिव/रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2006

सं. 2001/ई (जीआर)/II/7/3—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल चिकित्सा सेवा में निम्नलिखित डॉक्टरों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं. नाम नियुक्ति की तारीख

1 2 3

(डाक्टर)

1.	मनोहर कुमार	12.05.2003
2.	देवजनी मुखोपाध्याय	03.08.2001
3.	जेसन वर्गीस जॉय	27.11.2001
4.	अनामिका सिंह	02.08.2001
5.	लक्ष्मी शंकर नैनवाल	28.08.2001
6.	अशोक कुमार चक्रवर्ती	10.08.2001
7.	मणि शंकर	16.08.2001

1	2	3
	(डाक्टर)	
8.	अमिताव डे	02.08.2001
9.	एम. नागराजा मूर्ति	16.08.2001
10.	गजेन्द्र कुमार दास	17.08.2001
11.	मालीना मेहेर लाथा	19.09.2001
12.	राहुल टुगनैट	15.08.2001
13.	बोस्की जे. तेलंग	23.08.2001
14.	कल्पना कुमारी	02.12.2003
15.	ब्रजेश कुमार मिश्रा	24.11.2003
	(अपराह्न)	
16.	संजीव कुमार ठाकुर	28.02.2002
17.	सैकत सेनगुप्ता	20.08.2001
18.	माधुरी वर्मा	20.08.2001
19.	अनीष चट्टोपाध्याय	03.05.2002
20.	संदीप कुमार मेहता	08.08.2001
21.	शुची सुभाष	16.05.2002
22.	मनीष श्रीवास्तव	10.08.2001
23.	फ्रेंक अमल	20.08.2001
24.	वसुधा संगारू	17.08.2001
25.	सुमन लोध	08.10.2001
26.	उर्मी शंकर	28.07.2003
27.	राजेश आर. कोल्हे	11.09.2001
28.	प्रशांत भेडरकर	07.10.2002
29.	बिद्युत गोर्गोई	03.09.2001
30.	सीता कुमारी	21.08.2001
31.	वीनू वंदना	30.01.2002
32.	के. सी. रेंजू	16.08.2001

देबाशीष मजुमदार, संयुक्त निदेशक, स्था. (राज.)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2006

सं. 7/2/2006-प्रशा. II--श्री एस. के. शर्मा की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.12.2005 के का.ज्ञा. सं. 5/21/2005-सी.एस. II के तहत तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव श्रेणी (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदमानित) में पदोन्नति के फलस्वरूप और कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के दिनांक 6.1.2006 के उनके आदेश सं. 27-1851/88-ई-I के द्वारा कार्यभार से मुक्त किए जाने के पश्चात् उन्हें 9.1.2006 की पूर्वाह्न से 30.6.2006 तक की अवधि हेतु अथवा नियमित आधार पर इस पद के भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 10,000-325-15.200/- रुपये के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

उन्हें उसी तारीख से प्रसार भारती (आकाशवाणी महानिदेशालय) में तैनात किया जाता है।

श्यामा कुट्टी, अवर सचिव

दिनांक 12 अप्रैल 2006

सं. 7/2/2006-प्रसा. II--श्रीमती सुदेश चोपड़ा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2006 के का.ज्ञा. सं. 5/21/2005-सी.एस-II के तहत तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की निजी सचिव श्रेणी (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) में अपनी पदोन्नति होने के फलस्वरूप और औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नति विभाग के दिनांक 10.4.2006 के उनके आदेश सं. ए-45011/1/2006-ई-1 के तहत कार्यभार से मुक्त किए जाने के पश्चात् दिनांक 10.4.2006 की पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) के रूप में 30.6.2006 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है। उन्हें उसी तारीख से प्रसार भारती (दूरदर्शन महानिदेशालय) में तैनात किया जाता है।

श्यामा कुट्टी, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2006

सं. ए-31012/02/2005-आई.एस.एच.-II--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने निर्दिष्ट पद पर खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद में उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद का नाम	स्थायी आधार पर नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एम. के. मालवीय	उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	20.3.2004
2.	श्री मधुकर सहाय	उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	28.06.2005
3.	डॉ. एस. एस. चक्रवर्ती	सहायक निदेशक, खान सुरक्षा (ओ.एच.) ग्रेड-II	19.08.2003

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 5th May 2006

No. A. 22016/3/2006.—The President is pleased to appoint Shri S. V. Ranganath, a Member of Indian Administrative Service (KN:75), as Additional Secretary and Financial Adviser in the Department of Space with effect from the forenoon of 4.5.2006.

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & P.I.

New Delhi-110001, the 10th April 2006

No. A-19016/1/2003-Ad. I.—In pursuance of the orders of the Appointments Committee of the Cabinet communicated vide Department of Personnel & Training Order No. 22/3/2006-EO (SM.I) dated 31st March, 2006, Dr. Ramesh Chandra Panda, IAS (TN : 72) has assumed the charge of the post of Special Secretary in the Ministry of Statistics and Programme Implementation with effect from the forenoon of 1st April, 2006.

A. K. SAXENA, Jt. Secy.

The 12th April 2006

No. A-19011/14/2005-Ad.I.—In pursuance of Himachal Pradesh Government notification No. 3-28/72-DP-Apppt.-IV dated 15th February, 2006, Shri Prem Singh Rana, IAS (HP:70), Secretary, Ministry of Statistics & Programme Implementation has voluntarily retired from service with effect from the forenoon of 01.03.2006.

A. K. SAXENA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 10th May 2006

No. I-14012/9/2005-IPS.IV.—Under Rule-6 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following candidates to the Indian Police Service on Probation on the basis of the Civil Services Examination, 2004 with effect from the dates mentioned against their names :—

S. No.	Name of the IPS Probationer	Date of Birth	Date of Appointment to IPS
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Ms. Suman Goyal	25.08.1981	22.08.2005 (FN)
2.	Parmaditya	05.10.1975	22.08.2005 (FN)
3.	Syamsundar. S	22.02.1978	22.08.2005 (FN)
4.	C. M. Thri Vikrama Varma	17.07.1974	22.08.2005 (FN)
5.	Prithipal Singh	12.03.1976	22.08.2005 (FN)

1	2	3	4
	S/Shri		
6.	Manu Maharaaj	20.10.1974	22.08.2005 (FN)
7.	Jitender Rana	12.09.1979	22.08.2005 (FN)
8.	Amresh Kumar Mishra	07.02.1980	22.08.2005 (FN)
9.	Dhruv Gupta	02.05.1980	22.08.2005 (FN)
10.	Rahul Bhagat	15.10.1974	22.08.2005 (FN)
11.	Himanshu Shukla	16.09.1978	22.08.2005 (FN)
12.	Raghavendra Vatsa	16.09.1978	22.08.2005 (FN)
13.	Prem Vir Singh	01.06.1974	22.08.2005 (FN)
14.	Maninder Pratap Singh Pawar	12.05.1978	22.08.2005 (FN)
15.	Ms. Sumedha	26.11.1978	22.08.2005 (FN)
16.	M. S. Nethrapal	23.06.1980	22.08.2005 (FN)
17.	Kuldeep Dwivedi	24.09.1979	22.08.2005 (FN)
18.	Abhishek	26.01.1979	22.08.2005 (FN)
19.	Pankaj Kamboj	12.02.1980	22.08.2005 (FN)
20.	Aseem Vikrant Minz	31.01.1975	22.08.2005 (FN)
21.	Kaushlendra Kumar	15.08.1977	22.08.2005 (FN)
22.	Neeraj Kumar Gupta	05.06.1981	22.08.2005 (FN)
23.	Kori Sanjay Kumar Gurudin	15.04.1976	22.08.2005 (FN)
24.	Akbar. A	18.05.1976	22.08.2005 (FN)
25.	Sushant Kumar Saxena	03.11.1979	22.08.2005 (FN)
26.	Sanganakal Veeresh Prabhu	14.06.1977	22.08.2005 (FN)
27.	Manoj Kumar Sharma	03.07.1975	22.08.2005 (FN)
28.	Mohd. Suvez Haque	01.07.1978	22.08.2005 (FN)
29.	Ms. Nikam Sharda Vasant	04.06.1980	22.08.2005 (FN)
30.	R. Gopala Krishna Rao	04.03.1975	22.08.2005 (FN)
31.	Sanjeev Arora	09.02.1981	22.08.2005 (FN)
32.	Jai Narayan Pankaj	03.05.1976	22.08.2005 (FN)
33.	Harsh Kumar Bansal	25.09.1978	22.08.2005 (FN)
34.	Ms. Param Jyoti	10.07.1977	22.08.2005 (FN)
35.	Rajiv Ranjan	01.03.1979	22.08.2005 (FN)
36.	K. S. Narenthiran Nayar	27.10.1979	22.08.2005 (FN)
37.	Subhash Chandra Dubey	02.12.1977	22.08.2005 (FN)
38.	Ram Krishna Bhardwaj	25.09.1978	22.08.2005 (FN)
39.	Deepak Kumar	16.04.1979	22.08.2005 (FN)
40.	Ankaj Sharma	08.11.1976	22.08.2005 (FN)

1	2	3	4
	S/Shri		
41.	Ms. Manzil Saini	09.09.1975	22.08.2005 (FN)
42.	Akhilesh Kumar	20.07.1975	22.08.2005 (FN)
43.	J. Ravinder Goud	01.12.1973	22.08.2005 (FN)
44.	Ms. Ridhim Aggarwal	29.07.1982	22.08.2005 (FN)
45.	Ms. Neeru Garg	15.05.1982	22.08.2005 (FN)
46.	Krishna Kumar. V. K.	17.02.1975	22.08.2005 (FN)
47.	Gaurav Sharma	12.08.1980	22.08.2005 (FN)
48.	Madhur Verma	12.05.1980	22.08.2005 (FN)
49.	Sheesh Ram Jhajharia	03.09.1971	22.08.2005 (FN)
50.	Annappa. E	08.01.1974	22.08.2005 (FN)
51.	Mukhtar Mohsin	07.03.1977	23.08.2005 (FN)
52.	Vijay Singh	30.07.1972	12.12.2005(FN)
53.	Nishant Kumar Tiwary	02.03.1979	12.12.2005(FN)
54.	Kshatranil Singh	28.07.1977	12.12.2005(FN)
55.	M. Sunil Kumar Naik	20.08.1980	12.12.2005(FN)
56.	P. Kannan	31.05.1977	12.12.2005(FN)
57.	Manesh Chaudhry	17.02.1981	12.12.2005(FN)
58.	Kaliraj Mahesh Kumar. S	27.12.1975	12.12.2005(FN)
59.	Kadam Sandeep Vasant	28.05.1978	12.12.2005(FN)
60.	Abhishek Goyal	06.05.1980	12.12.2005(FN)
61.	Raman Gupta	06.11.1980	12.12.2005(FN)
62.	Ashis	02.02.1977	12.12.2005(FN)
63.	Shaikh Arif Husen	30.03.1980	12.12.2005(FN)
64.	Kabib. K	18.05.1979	12.12.2005(FN)
65.	Ms. Princee Rani	20.01.1980	12.12.2005(FN)
66.	Rajesh Kumar	19.11.1976	12.12.2005(FN)
67.	Vijayendra Bidari	29.05.1982	12.12.2005(FN)
68.	Vishnu Kant	20.08.1978	12.12.2005(FN)
69.	Ajay Pal Lamba	07.08.1978	12.12.2005(FN)
70.	Rupesh Kumar Meena	29.06.1974	12.12.2005(FN)
71.	Upendra Kumar Agrawal	20.03.1980	12.12.2005(FN)
72.	Prem Kumar Gautam	20.10.1977	12.12.2005(FN)
73.	Nilesh Anand Bharnce	28.08.1972	12.12.2005(FN)
74.	Murli Dhar	20.07.1977	12.12.2005(FN)
75.	Akhilesh Kumar Chaturvedi	15.09.1980	12.12.2005(FN)
76.	Randeep. D	03.07.1979	15.12.2005(FN)
77.	Sukesh Kumar Jain	08.06.1983	26.12.2005(FN)
78.	Praveen Kumar Abhinapu	02.08.1980	06.01.2006(FN)
79.	Avinash Mohanty	31.07.1980	06.01.2006(FN)

2. The appointment of the above mentioned candidates to Indian Police Service is provisional and subject to necessary clearance from the Department of Personnel and Training.

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi-110003, the 1st May 2006

No. 13011/5/2005-O.L.(P&C).—The President is pleased to appoint Smt. Anima Taneja, Assistant Director (Adhoc), Central Translation Bureau, A subordinate office of the Department of Official Language, as Assistant Director in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on promotion w.e.f. the forenoon of 3rd April 2006.

B. M. S. NEGI, Director (Policy)

No. 13011/5/2005-O.L.(P&C).—The President is pleased to appoint Smt. Parvesh Sharma, Assistant Director (Adhoc), Central Translation Bureau, A subordinate office of the Department of Official Language, as Assistant Director in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on promotion w.e.f. the forenoon of 28th March 2006.

B.M.S. NEGI, Director (Policy)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 3rd May 2006

No. 14015/05/2005-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2005 on 1st May, 2006 for the Chhattisgarh Cadre, containing the names of the following State Civil Service officers of the State of Chhattisgarh, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 28th December, 2005, towards filling up 13 (thirteen) vacancies during 2005 in the Indian Administrative Service :—

SELECT LIST 2005

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1	2	3
	S/Sh.	
1.*	H. P. Kindo (ST)	11.08.1953
2.	Jusuf Minz (ST)	08.02.1953
3.#	Onkar Singh (ST)	03.11.1959
4.	M. S. Paraste (ST)	16.04.1954
5.	Surendra Kumar Jaiswal	23.05.1959
6.	Omega Eunies Toppo (ST)	05.03.1959
7.	Xavier Tigga (ST)	13.01.1953

1	2	3
	S/Shri	
8.	Ashok Kumar Agrawal	20.01.1958
9.	Naval Singh Mandavi (ST)	15.07.1954
10.	Devi Dayal Singh (ST)	07.06.1961
11.	S. L. Ratre (SC)	03.02.1956
12.	S. P. Shourie (ST)	08.08.1954
13.	S. R. Brahmane (SC)	01.01.1956

(*) The name at S. No. 1 has been included in the Select List provisionally subject to clearance of the Disciplinary Case pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

(#) The name at S. No. 3 has been included in the Select List provisionally subject to clearance of the Criminal case pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/05/2005-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Chhattisgarh to the Indian Administrative Service against the vacancies of the year 2005 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Chhattisgarh Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl. No. Name of the Officer

	S/Sh.
1.	Jusuf Minz (ST)
2.	M. S. Paraste (ST)
3.	Surendra Kumar Jaiswal
4.	Omega Eunies Toppo (ST)
5.	Xavier Tigga (ST)
6.	Ashok Kumar Agrawal
7.	Naval Singh Mandavi (ST)
8.	Devi Dayal Singh (ST)
9.	S. L. Ratre (SC)
10.	S. P. Shourie (ST)
11.	S. R. Brahmane (SC)

JAGAN LAL, Under Secy.

The 5th May 2006

No. 14015/12/2005-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in sub-regulation (1) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the 2005 Select List on 03.04.2006 containing the name of Sh. P.P. Gopi (SC) (Date of Birth : 22.07.1951), a member of the Non-State Civil Service of the State of Kerala prepared by the Selection Committee in its meetings held on 23rd December, 2005, towards filling up one (01) existing vacancy in the Kerala Cadre of the Indian Administrative Service, during 2005.

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/12/2005-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Sh. P.P. Gopi (SC), a member of Non-State Civil Service officer of Kerala to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Kerala Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

JAGAN LAL, Under Secy.

New Delhi, the 04th May 2004

No. 14012/13/2005-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service born on the State Cadre of Maharashtra, with effect from the dates shown against them.

Sl. No.	Name	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri Piyush Singh	2000	04.09.2002
2.	Shri N.K. Sudhansu	2000	16.09.2002
3.	Shri P. Anbalagan	2001	02.09.2003
4.	Ms. Prajakta Ramchandra Lavangare	2001	02.09.2003
5.	Shri Nipun Vinayak	2001	02.09.2003
6.	Shri S.K. Pardeshi	2001	02.09.2003
7.	Ms. Nidhi Pandey	2001	02.09.2003
8.	Ms. Vijayalakshmi Bidari	2001	02.09.2003

G.C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, 2nd May 2006

No. A.12026/7/2004-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Hem Raj, Handicrafts Promotion Officer of the O/o the Development Commissioner (Handicrafts) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 on deputation basis in the Department of personnel & Training w.e.f. the forenoon of 4th April, 2006 for the period of three years. The pay of Shri Hem Raj will be regulated in accordance with this Department's OM No. 2/29/91-Estt(Pay.II) dated 5.1.94 as amended from time to time.

V.K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 3rd May 2006

No. 13017/47/2005-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Manipur-Tripura and The Ministry of Home Affairs as a cadre controlling authority of AGMUT, the Central Government hereby transfers Shri Ankur Garg, IAS (RR: 2003) from IAS Cadre of Manipur-Tripura to the IAS Cadre of AGMUT with immediate effect.

ARUN KUMAR SINGH, Desk Officer

The 04th May 2006

No. 22012/32/2000-AIS(I)—In pursuance of the Order dated 11.5.2000 of CAT Principal Bench in OA No. 213/2000 read with the Order dated 31.5.2002 of High Court of Delhi in CWP No. 6448/2000 and Order dated 22nd February, 2006 of the Supreme Court in Civil Appellate Jurisdiction, Civil Appeal No. 1895 of 2003, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules 1954, hereby transfers Shri N. Manjunatha Prasad, IAS (RR : 94) from West Bengal Cadre of IAS to Karnataka Cadre of IAS with immediate effect.

ARUN KUMAR SINGH, Desk Officer

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 28th April 2006

No. D-III/460/CF-10/2004—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Devinder Pal Singh, Honorary Consul, as Honorary Consul General of the Republic of Albania in New Delhi with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Devinder Pal Singh comprises the entire Territory of India.

P.P. SIRCAR, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 28th March 2006

No. 21: (F.No. 50/71/2004-Ad.I)—In pursuance of Department of Expenditure (Cadre Administration Section)'s O.M. No. A-12026/4/2005-CAS dated 10.3.2006 and Ad. IB Section, Department of Revenue's Office Order No. A/27/2006 dated 20.3.2006, President is pleased to appoint the following Assistants, Finance Cadre of C.S.S. as Section Officers in the Department of Revenue, purely on ad-hoc basis for a period of six months i.e. from 20.3.2006 (FN) to 19.9.2006 (AN) or till the select list persons become available, whichever is earlier.

S/Shri

1. N.K. Sharma
2. S.K. Ghose
3. Sohan Lal
4. Munshi Ram
5. Ramesh
6. R.K. Mehndiratta

2. The ad-hoc promotion of above Section Officers do not bestow on him any claim for regular appointment and the services rendered by them on short-term basis will not count for promotion to the next grade.

PREETI PANT, Under Secy.

The 05th April 2006

No. 24: (F. No. A. 38011/1/2006-Ad.I)—Shri Sudhakar Mishra, an officer of the Indian Revenue Service (Income Tax: 1969), posted as member, Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue retired voluntarily from Government Service on 28 March 2006 (FN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972 to join as Member, Settlement Commission (Income Tax/Wealth Tax).

PREETI PANT, Under Secy.

The 7th April 2006

No. 22 : (F.No.A-19012/3/2006-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri A.K. Vajpayee, Indian Railway Accounts Service (1987) as Director in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 3.4.2006 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

PREETI PANT, Under Secy.

The 10th April 2006

No. 26: (F.No. 50/85/2006-Ad.I)—In pursuance of this Department's Officer Order No. 65/2006 dated 9.3.2006, the President is pleased to appoint the following 2 permanent Section Officers in the CSS cadre of the Ministry of

Finance as Senior Technical Officer, Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND), Department of Revenue on deputation basis for a period of three years in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 with effect from the dates shown against their names and until further orders :—

S. No.	Name of the Officer	Date of Appointment as STO (FIU-IND)
1.	Shri G.S. Rao	03.04.2006 (FN)
2.	Shri Nityananda Ray	03.04.2006 (FN)

PREETI PANT, Under Secy.

New Delhi, the 27th April 2006

No. 1/2006. (F.No. 26/1/2006-Ad.IC)—The President is pleased to appoint Sh. K.K. Agarwal, Chief Commissioner of Customs, Mumbai as Member (Technical) in the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, with effect from 16.02.2006 (Forenoon) and till further orders.

The appointment is subject to the outcome of the O.A. No. 432 of 2005 before the Central Administrative Tribunal, Mumbai Bench.

S.G.P. VERGHESE, Under Secy.

No. 2/2006. (F.No. 26/2/2006-Ad.IC)—The President is pleased to appoint Sh. P. Karthikeyan, Commissioner of Customs (Adjn), Mumbai as Member (Technical) in the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, with effect from 10.02.2006 (Forenoon) and till further orders.

S.G.P. VERGHESE, Under Secy.

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 29th December 2005

No. PFG(556)/96-Admn.II—On his transfer, Shri Keshaw Prasad, a Senior Time Scale (Legal Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished the charge of the post of Bench Officer in the Office of the Company Law Board, Eastern Region Bench, Kolkata in the afternoon of 17.06.2005.

2. In exercise of powers conferred by Section 609 (2) and Section 448(1) (a) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Keshaw Prasad, a Senior Time Scale (Legal Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Registrar of Companies, Patna-cum-Official Liquidator, High Court, Patna with effect from the afternoon of 20.06.2005, until further orders.

RAVINDER DUTT, Dy. Secy.

New Delhi, the 22nd February 2006

No. PFG(678)/2006-Admn.II—Consequent upon his promotion to the Junior Time Scale (Legal Branch) of the

Indian Law Service, Shri M.S. Pachouri, Senior Technical Assistant has assumed charge of the post of Assistant Director (Inspection) in the Headquarters with effect from the 2nd February, 2006 (Forenoon).

2. In exercise of powers conferred by Clause (ii) of sub-section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorize Shri M.S. Pachouri, Assistant Director (Inspection) for the purpose of the said section 209A.

R.C. TULLY, Under Secy.

The 29th February 2006

No.PFG(665)/2006-Admn.II.—On the basis of the recommendations of the DPC meeting held on 07.12.2005 in UPSC, the President is pleased to appoint, on promotion, Shri P.C. Nanda Kumar, a Senior Technical Assistant to the Junior Time Scale (Accounts Branch) of the Indian Company Law Service vide Ministry of Company Affairs Office Order No. A-32011/2/2003-Admn.II dated 01.02.2006.

2. Consequent upon his appointment on promotion to the JTS (Accounts Branch) of the ICLS, the Central Government, in exercise of powers conferred under section 609 (2) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), has appointed Shri P.C. Nanda Kumar as Assistant Registrar of Companies in the Office of the Registrar of Companies, Hyderabad. Shri P.C. Nanda Kumar has assumed the charge of the post of AROC, Hyderabad on 16.02.2006 (Forenoon).

R.C. TULLY, Under Secy.

No.PFG(671)/2006-Admn.II.—On the basis of the recommendations of the DPC meeting held on 07.12.2005 in UPSC, the President is pleased to appoint, on promotion, Shri Kamal Harjani, a Senior Technical Assistant to the Junior Time Scale (Accounts Branch) of the Indian Company Law Service vide Ministry of Company Affairs Office Order No. A-32011/2/2003-Admn.II dated 01.02.2006

2. Consequent upon his appointment on promotion to the JTS (Accounts Branch) of the ICLS, the Central Government, in exercise of powers conferred under section 609 (2) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), has appointed Shri Kamal Harjani as Assistant Registrar of Companies in the Office of the Registrar of Companies, Ahmedabad. Shri Kamal Harjani has assumed the charge of the post of AROC, Ahmedabad on 08.02.2006 (Forenoon).

R.C. TULLY, Under Secy.

No.PFG(674)/2006-Admn.II.—On the basis of the recommendations of the DPC meeting held on 07.12.2005 in UPSC, the President is pleased to appoint, on Promotion, Shri R.K. Bakshi, a Senior Technical Assistant to the Junior

Time Scale (Legal Branch) of the Indian Company Law Service vide Ministry of Company Affairs Office Order No. A-32011/2/2003-Admn.II dated 01.02.2006.

2. Consequent upon his appointment on promotion to the JTS (Legal Branch) of the ICLS, the Central Government has appointed Shri R. K. Bakshi as Bench Officer, Company Law Board, New Delhi. Shri R.K. Bakshi has assumed the charge of the post of Bench Officer, Company Law Board, New Delhi with effect from 17.02.2006 (Forenoon).

R.C. TULLY, Under Secy.

The 13th March 2006

No.PFG(663)/2006-Admn.II.—On the basis of the recommendations of the DPC meeting held on 07.12.2005 in UPSC, the President is pleased to appoint, on Promotion, Smt. Padmavathi Balakrishnan, a Senior Technical Assistant to the Junior Time Scale (Accounts Branch) of the Indian Company Law Service vide Ministry of Company Affairs Office Order No. A-32011/2/2003-Admn.II dated 01.02.2006.

2. Consequent upon her appointment on promotion to the JTS (Accounts Branch) of ICLS, Smt. Padmavathi Balakrishnan has assumed charge of the post of Assistant Director (Inspection) in the Office of the Regional Director, Mumbai, with effect from the 2nd February, 2006.

3. In exercise of powers conferred by Section 209-A(1)(ii) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorize Smt. Padmavathi Balakrishnan, Assistant Director (Inspection) of the purpose of the said section 209-A.

R.C. TULLY, Under Secy.

The 24th March 2006

No.PFG(664)/2006-Admn.II.—On the basis of the recommendations of the DPC meeting held on 07.12.2005 in UPSC, the President is pleased to appoint, on Promotion, Shri C. Rupachandar, a Senior Technical Assistant to the Junior Time Scale (Accounts Branch) of the Indian Company Law Service vide Ministry of Company Affairs Office Order No. A-32011/2/2003-Admn.II dated 01.02.2006.

2. Consequent upon his appointment on promotion to the JTS (Accounts Branch) of the ICLS, Shri C. Rupachandar has assumed charge of the post of Assistant Director (Inspection) in the Office of the Regional Director, Mumbai, with effect from the 10th February, 2006 (Forenoon).

3. In exercise of powers conferred by Section 209-A(1)(ii) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorizes Shri C. Rupachandar, Assistant Director (Inspection) of the purpose of the said section 209-A.

R.C. TULLY, Under Secy.

No. PFG(669)/2006-Admn.II.—On the basis of the recommendations of the DPC meeting held on 07-12-2005 in UPSC, the President is pleased to appoint, on promotion, Shri Tapan Kumar Chakraborty, a Senior Technical Assistant to the Junior Time Scale (Legal Branch) of the Indian Company Law Service vide Ministry of Company Affairs Office Order No. A-32011/2/2003-Admn.II dated 01-02-2006.

2. Consequent upon his appointment on promotion to the JTS (Legal Branch) of the ICLS, the Central Government, in exercise of powers conferred under section 609(2) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), has appointed Shri Tapan Kumar Chakraborty as Assistant Registrar of Companies in the Office of the Registrar of Companies, Kolkata. Shri Tapan Kumar Chakraborty has assumed the charge of the post of AROC, Kolkata on 06-02-2006 (Forenoon).

R.C. TULLY, Under Secy.

No. PFG(670)/2006-Admn.II.—On the basis of the recommendations of the DPC meeting held on 07-02-2005 in UPSC, the President is pleased to appoint, on promotion, Shri Tarun Kumar Mukherjee, a Senior Technical Assistant to the Junior Time Scale (Legal Branch) of the Indian Company Law Service vide Ministry of Company Affairs Office Order No. A-32011/2/2003-Admn.II dated 01-02-2006 (Afternoon).

2. Consequent upon his appointment on promotion to the JTS (Legal Branch) of ICLS, Shri T. K. Mukherjee has assumed charge of the post of Assistant Director (Inspection) in the Office of the Regional Director, Kolkata, with effect from the 6th February, 2006 (Afternoon).

3. In exercise of the powers conferred by Section 209-A(1)(ii) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorizes Shri T. K. Mukherjee, Assistant Director (Inspection) for the purpose of the said section 209-A.

R.C. TULLY, Under Secy.

The 27th March 2006

No. PFG(667)/2006-Admn.II.—On the basis of the recommendations of the DPC meeting held on 07-12-2005 in UPSC, the President is pleased to appoint, on promotion, Mrs. Elsy Papachan, a Senior Technical Assistant to the Junior Time Scale (Accounts Branch) of the Indian Company Law Service vide Ministry of Company Affairs Office Order No. A-32011/2/2003-Admn.II dated 01-02-2006.

2. Consequent upon her appointment on promotion to the JTS (Accounts Branch) of the ICLS, the Central Government, in exercise of powers conferred under section 609(2) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), has appointed Mrs. Elsy Papachan as Assistant Registrar of Companies in the Office of the Registrar of Companies, Mumbai. She has assumed the charge of the post of AROC, Mumbai on 02-02-2006 (Forenoon).

R.C. TULLY, Under Secy.

The 18th April 2006

No. PFG(672)/2006-Admn.II.—On the basis of the recommendations of the DPC meeting held on 07-12-2005 in UPSC, the President is pleased to appoint, on promotion, Shri K. C. Meena, Investigating Officer to the Junior Time Scale (Accounts Branch) of the Indian Company Law Service vide Ministry of Company Affairs Office Order No. A-32011/2/2003-Admn.II dated 01-02-2006.

2. Consequent upon his appointment on promotion to the JTS (Accounts Branch) of the ICLS, the Central Government, in exercise of powers conferred under section 609(2) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), has appointed Shri K. C. Meena as Assistant Registrar of Companies in the Office of the Registrar of Companies, Jalandhar. Shri K. C. Meena has assumed the charge of the post of AROC, Jalandhar on 23-02-2006 (Afternoon).

R. C. TULLY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 25th April 2006

No. A-5(11)/2005-EPZ.—The President is pleased to appoint Shri S. Vaidyanathan, Appraiser, Office of Commissioner of Customs, Chennai to the post of Appraiser, Customs, in O/o Development Commissioner, Madras Special Economic Zone, Chennai, in the pay scale of Rs. 7,500-12,000/- on deputation basis, for a period of three years with effect from 4-4-2006 (Forenoon), or until further orders.

V. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

The 28th April 2006

No. A.4/11/2004-EPZ.—The President is pleased to appoint Shri B. Raja Babu, Assistant in Visakhapatnam Special Economic Zone, Visakhapatnam to the post of Assistant Development Commissioner, (G. 'B' Gazetted) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, in the same office on promotion basis w.e.f. 7-3-2006 (Forenoon) or until further orders.

V. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 21st April 2006

No. A-12011/6/2005-HR-II.—The President is pleased to appoint Shri T. A. Basil, ICoAS (1991) as Joint Director (Inputs) at the level of Deputy Secretary in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Office of Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) New Delhi, Deptt. of Fertilizers for a period of 4 years w.e.f. afternoon of 7th April, 2006 or until further orders whichever is earlier.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 19th April 2006

No. 11(39)/2005-Estt.—The President is pleased to extend the *ad hoc* appointment of the following grade 'C' stenographers of the CSSS cadre of the Ministry of Steel to officiate in merged 'A' & 'B' of the same service and cadre up to 31-5-2006 or until further orders whichever is earlier :

Smt. Surinder Kaur

Shri M. S. Punjani

The *ad hoc* appointment will not confer any right of seniority or regular promotion and will be liable for termination on nomination of personnel by the DoPT.

BABOO RAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY AND PUBLIC
ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 5th May 2006

No. A-19011/192/2006-Admn.—In partial modification of Department of Public Enterprises' notification of even number dated 19.4.2006, the President is pleased to appoint Shri Abhijit Sengupta, IAS (KN : 72) as Secretary, Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises, in the pay of Secretary to the Government of India w.e.f. 1st April, 2006.

P. J. MICHAEL, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC
DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 1st May 2006

No. A-32013/5/2004-SA.—The President is pleased to appoint Shri B. Karunamoorthy, Inspecting Officer (Sugar), in the Directorate of Sugar to the post of Assistant Director (Inspection) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/-, in Directorate of Sugar, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution, with effect from afternoon of 13th April, 2006 until further orders.

ABINASH VERMA, Dir.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 24th April 2006

No. A-12023/1/03-Admn.I(A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 24-01-2006, the President is pleased to extend the term of *ad hoc* appointment of the following permanent Grade 'C' Stenographers of the CSSS Cadre of the Ministry of Science and Technology as Private Secretaries in the scale

of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Science & Technology up to 31-05-2006 or until regular select list officers join or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri Ram Prakash
2. Smt. Krishna Mathur
3. Shri Brij Nath
4. Shri S. V. Mohan
5. Shri Jatinder Prabhakar (DBT)
6. Shri Tejpal Singh Sehrawat
7. Smt. Solochana Radhwani (DBT)
8. Smt. Sarojini Datta (DSIR)
9. Shri Anil Kukreti (DBT)

J. K. TRIKHA, Under Secy.

The 26th April 2006

No. A-12023/01/06-Admn.I(A).—The President is pleased to appoint Shri I. J. Sharma, a permanent Grade 'C' Stenographer of the CSSS Cadre of the Ministry of Science & Technology as Private Secretary on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Department of Science and Technology for a period of six months w.e.f. 01-03-2006 or until further orders, whichever is earlier.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

New Delhi, the 27th April 2006

No. SM/34/46/2005.—The President is pleased to appoint Dr. T. K. Basu holding the post of Deputy Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation (NATMO) to the post of Joint Director in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- General Central Service (Group 'A') promotion w.e.f. 28th March, 2006 until further orders.

L. K. CHAWLA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
(NATIONAL RIVER CONSERVATION DIRECTORATE)

New Delhi-110003, the 8th May 2006

No. A-24011/2/2006-NRCD.—Consequent upon approval of the Competent Authority in the Ministry of Environment & Forests, the services of the following three officers on deputation basis have been extended further for a period of one year w.e.f. 8th May, 2006 or until further orders, whichever is the earliest :—

Sl. No.	Name	Designation
1	2	3
1.	Sh. Lalit Kapoor,	Addl. Director (Scientist 'SE')

1	2	3
2.	Dr. K. C. Rathore,	Addl. Director (Scientist 'SE')
3.	Sh. Lalit Kr. Bokolia	Deputy Director (Scientist 'SC')
M. L. PARASHAR, Under Secy.		

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

**DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA &
NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY (AYUSH)**

New Delhi, the 1st May 2006

No. A-38012/3/2005-AYUSH(E-II).—On attaining the age of superannuation, Shri A. R. Harea, Deputy Secretary, Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), M/o Health & Family Welfare retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th April, 2006.

ANSHUMANN SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 7th April 2006

No. 12022/14/2005-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Harinder Kumar, a regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS borne on the cadre of Ministry of Finance as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the forenoon of 3.3.2006 for a period up to 30.6.2006 or till the post is filled on regular basis or till further order, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary Grade (designated as Principal Private Secretary) of CSSS.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

**(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,
DAIRYING & FISHERIES)**

New Delhi, the 5th May 2006

No. 2-I/2005-Fy.dmn.—The President is pleased to appoint Shri T. E. Venkatachalam, Mechanical Marine Engineer to the post of Director (Engineering) (General Central Service Group 'A') Gazetted, (Non-Ministerial) on regular basis in Fishery Survey of India, Mumbai in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 12.04.2006 F.N.

SUDEEPA KOELLI, Under Secy.

New Delhi, the 17th April 2006

No. 19011/2/2006-Admn.-I.—On the recommendation & nomination by the Department of Personnel & Training,

Sh. H. R. Keshavamurthy, I. Inf.S. (1995) has taken over the charge of the post of Deputy Secretary in the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries with effect from the forenoon of 13.4.2006 and he is taken on the strength of the Department with effect from the same date for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. K. CHAUDHRY, Dir.

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi-110001, the 4th May 2006

No. 2-2/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Nachiketa Kapur R/o House No. 10-B, Ganga Ram Hospital Road, New Delhi as Officer on Special Duty (OSD) with the Minister of State (Independent Charge) (Smt. Renuka Chowdhury) Ministry of Women and Child Development w.e.f. 30.1.2006 (FN) to 22.3.06 (AN) in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/-.

S. K. DARGAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 02nd May 2006

No. 2(5)/2005-P.I.—In pursuance of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance Order No. 13016/2/2005-IES dated 05.12.2005, Shri B. N. Satpathy, (IES: 1980) is hereby appointed as Director in the Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology in the Non-Functional Selection Grade of Rs. 14,300-400-18,300/- by temporarily downgrading the newly created post of Economic Adviser (Senior Administrative Grade) with effect from the forenoon of 6th December, 2005 till the availability of regular SAG level officer.

GIRISH SAHAJ, Dy. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 5th July 2001

No. A-39013/1/1999-Adm.I.—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Sh. D. Pandia Rajan, Emp. Code No. 4908, from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre Headquarters, New Delhi, with effect from the afternoon of 14.5.1999 (A.N) and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Dy. Dir.

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 1st May 2006

No. A.38011/2/2006-Admn.—The President is pleased to permit Shri S. Rajagopalan, Deputy Secretary, a Grade-1

Officer of Central Secretariat Service and working as Director (Admn) in Bureau of Civil Aviation Security, Ministry of Civil Aviation to retire voluntarily from Government service with effect from afternoon of 1st May, 2006 under Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

No. A. 12022/3/2000-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Sanjiv Jindal, Under Secretary of CSS Cadre in the Ministry of Home Affairs as Under Secretary in the Ministry of Civil Aviation with effect from the afternoon of 25th April, 2006 consequent upon his transfer vide DOPT's Order No. 5/1/2006-CS.I dated 28th March, 2006.

2. On his appointment, Shri Sanjiv Jindal is posted in the Ministry (main).

S. KESAVA IYER, Under Secy.

No. A.12022/9/2002-Admn.—The President is pleased to appoint the following Personal Assistants (Stenographer Grade 'C') of the CSSS cadre of the Ministry of Civil Aviation to officiate as Private Secretary (Stenographer Grade 'A&B'-Merged) in pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- of CSSS on ad-hoc basis for the period shown against each or until further orders whichever is earlier:—

Sl. No	Name	Place of Posting	Period
1.	Shri R. K. Kohli	DGCA	01.1.2006 to 31.5.2006
2.	Shri V. D. Sharma	Ministry (main)	01.1.2006 to 31.5.2006
3.	Smt. Uma Chopra	DGCA	12.2.2006 to 31.5.2006

2. The appointment of the above mentioned officials to the Private Secretary Grade is purely on ad-hoc basis and they will have no claim for absorption in the Private Secretary Grade of CSSS cadre of the Ministry of Civil Aviation for seniority in the grade.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 3rd May 2006

No. A. 32022/1/99-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Kishan Lal, a regular Stenographer Grade 'A&B' (merged) of the Ministry of Civil Aviation as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- in the Ministry of Civil Aviation w.e.f. the forenoon of 27.4.2006 in pursuance of Department of Personnel & Training O. M No. 5/21/2005-CS.II dated 19.4.2006.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 27th April 2006

No. E(GP) 2002/1/59.—The President is pleased to approve of Shri S. Tamil Cholai, a Group 'B' officer of Personnel Department of South Central Railway, being appointed substantively to the Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Personnel Service (IRPS) with effect from 13th December, 2005 on that Railway, against the Supplementary panel for the year 2003-2004.

M. K. AGARWAL, Secy.
Railway Board

The 28th April 2006

No. E(GP)2002/1/50.—The President is pleased to approve of the undermentioned 2 Group 'B' officers of Mechanical Engg. Department of Indian Railways, being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME) w.e.f. 2nd February, 2006 on the Railway mentioned.

SUPPLEMENTARY PANEL FOR THE YEAR 2003-2004

Sl. No. Name of Officer

Eastern Railway

1. Shri I. S. Rai

Northern Railway

1. Shri Mahesh Prasad Suman (SC)

M. K. AGARWAL, Secy.
Railway Board

New Delhi, the 27th April 2006

No. 2001/E(GR)II/7/3.—The President is pleased to appoint the following doctors as Assistant Divisional Medical Officers in the Indian Railway Medical Service with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name of (Doctor)	Date of Joining
1	2	3
	S/Shri	
1.	Manohar Kumar	12.05.2003
2.	Debjani Mukhopadhyay	03.08.2001
3.	Jason Verghese Joy	27.11.2001

1	2	3
	S/Shri	
4.	Anamika Singh	02.08.2001
5.	Laxmi Shankar Nainwal	28.08.2001
6.	Ashok Kumar Chakraborty	10.08.2001
7.	Mani Shankar	16.08.2001
8.	Amitava Day	02.08.2001
9.	M. Nagaraja Murthy	16.08.2001
10.	Gajendra Kumar Das	17.08.2001
11.	Malina Meher Latha	19.09.2001
12.	Rahul Tugnait	16.08.2001
13.	Bosky J. Telang	23.08.2001
14.	Kalpana Kumari	02.12.2003
15.	Brajesh Kumar Mishra	24.11.2003 (A.N.)
16.	Sanjeev Kumar Thakur	28.02.2002
17.	Saikat Sengupta	20.08.2001
18.	Madhuri Verna	20.08.2001
19.	Anish Chattopadhyay	03.05.2002
20.	Sandeep Kumar Mehta	08.08.2001
21.	Shuchi Subhash	16.05.2002
22.	Manish Srivastava	10.08.2001
23.	Frank Amal	20.08.2001
24.	Vasudha Sangaru	17.08.2001
25.	Suman Lodh	08.10.2001
26.	Urmi Sankar	28.07.2003
27.	Rajesh R. Kolhe	11.09.2001
28.	Prashant Bhedarkar	07.10.2002
29.	Bidyut Gogoi	03.09.2001
30.	Sita Kumari	21.08.2001
31.	Veenu Vandana	30.01.2002
32.	K. C. Renju	16.08.2001

DEBASIS MAZUMDAR, Jt. Dir. Estt. (Gaz)

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-110001, the 13th January 2006

No. 7/2/2006-Admn.II.—Consequent upon his promotion to the Private Secretary Grade (designated as Principal Private Secretary) of the Central Secretariat Stenographers' Service Cadre on ad-hoc basis, vide Department of Personnel and Training's O. M. No. 5/21/2005 CS. II dated 21.12.2005 and after having been relieved by Ministry of Agriculture (Department of Agriculture &

Cooperation) vide their Order No. 27-1851/88-E.I dated 06.01.2006, Shri S. K. Sharma is appointed as Principal Private Secretary (ad-hoc) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 09.01.2006 for a period upto 30.06.2006 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier. He is posted in Prasar Bharati (Directorate General : All India Radio) from the same date.

SHYAMA KUTTY, Under Secy.

The 12th April 2006

No. 7/2/2006-Admn.II.—Consequent upon her promotion to the Private Secretary Grade (designated as Principal Private Secretary) of the Central Secretariat Stenographers' Service Cadre on ad-hoc basis, vide Department of Personnel and Training's O. M. No. 5/21/2005 CS. II dated 31.03.2006 and after having been relieved by Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry vide their Order No. A-45011/1/2006-E.I dated 10.04.2006, Smt. Sudesh Chopra is appointed as Principal Private Secretary (ad-hoc) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 10.04.2006 for a period upto 30.06.2006 or till the post

is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier. She is posted in Prasar Bharati (Directorate General : Doordarshan) from the same date.

SHYAMA KUTTY, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 28th April 2006

No. A-31012/02/2005-ISH.II.—The President is pleased to appoint the following officers to the posts mentioned against their names in the office of Directorate General of Mines Safety, Dhanbad with effect from the date indicated against the name of each officer in a substantive capacity :—

Sl. No.	Name of officers	Name of the post	Date of substantive appointment
1.	Shri M. K. Malviya	Deputy Director of Mines Safety (Electrical)	20.03.2004
2.	Shri Madhukar Sahay	Deputy Director of Mines Safety (Electrical)	28.06.2005
3.	Dr. S. S. Chakraborty	Assistant Director of Mines Safety (OH) Gr.II	19.08.2003

PRADEEP GAUR, Under Secy.